

प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 27.08.17

दुधीचुआ क्षेत्र ने स्वच्छता गतिविधियों को दी नई उड़ान

एनसीएल स्वच्छता पखवाड़े में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है टीम दुधीचुआ

नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में चल रहे स्वच्छता पखवाड़े में कंपनी का दुधीचुआ क्षेत्र बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इसी कड़ी में रविवार को स्वच्छता की थीम पर दुधीचुआ क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच स्लोगन एवं निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। शनिवार को भी दुधीचुआ के प्रभारी क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री वी.के. अग्रवाल की अगुआई में अधिकारियों-कर्मचारियों की टीम ने स्थानीय पिपरालाल गांव एवं शासकीय मध्य विद्यालय, दुधीचुआ में पौधारोपण किया तथा पिपरालाल के ग्रामीणों को पौधे वितरित किए।

दुधीचुआ क्षेत्र की स्वच्छता मुहिम 31 अगस्त तक पखवाड़े की समाप्ति तक जारी रहेगी। 28 अगस्त यानी सोमवार को टीम दुधीचुआ द्वारा मुडवाणी बैगा बस्ती एवं दुधीचुआ टाउनशिप में स्थित स्कूलों में इस्टबिन का वितरण किया जाएगा। 29 अगस्त को स्थानीय जुवाड़ी गांव में पौधे वितरित किए जाएंगे। 30 अगस्त को स्वच्छता से संबंधित नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा तथा 31 अगस्त को पखवाड़े का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें पखवाड़े के दौरान हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा।

गौरतलब है कि क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री एम.के.प्रसाद ने 16 अगस्त को दुधीचुआ क्षेत्र के अधिकारियों-कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाकर स्वच्छता पखवाड़े का औपचारिक शुभारंभ किया था। इसके पश्चात टीम दुधीचुआ द्वारा स्थानीय स्कूली बच्चों को भी स्वच्छता शपथ दिलाई गई है तथा उनके बीच स्वच्छता से संबंधित विषयों पर निबंध एवं पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। स्कूलों में लगातार सफाई अभियान चलाया गया है। पिछले 11 दिनों में दुधीचुआ क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय की साफ-सफाई, क्षेत्रीय आवासीय परिसर में कूड़ेदान की साफ-सफाई तथा कचरे का निपटारा, सड़कों एवं नालों की सफाई, बैगा बस्ती वॉर्ड नंबर 13 में

स्वास्थ्य शिविर का आयोजन तथा स्थानीय गावों क साफ-सफाई समेत पौधारोपण एवं पौधावितरण कार्यक्रमों का आयोजन टीम दुधीचुआ द्वारा किया गया है।

जनसम्पर्क अधिकारी
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड